

13849
8/3/04

9052

भारत सरकार मुद्रणालय REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O. 400

KM. 30

Depth. 150

CPB. 220

सं. 23]

No. 23]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 19, 2004/पौष 29, 1925

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 19, 2004/PAUSA 29, 1925

पूरा किया

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2004

सं. 6/2004-सी.शु. (गै.टै.)

प्रभारी
रा. वि. एकक

सा.का.नि. 49(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 156 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल की कीमत का निर्धारण) नियमावली, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- (1) इस नियमावली को सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल की कीमत का निर्धारण) संशोधन नियमावली, 2004 कहा जाए।
- (2) सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल की कीमत का निर्धारण) नियमावली, 1988 में नियम 9 के उप-नियम (2) में, तीसरे परन्तुक के बाद निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“बशर्ते यह भी कि अंतर्देशीय आधान डिपो अथवा आधान माल स्टेशन पर निकासी हेतु समुद्र के जरिए कंटेनर में भरे हुए माल के आयात किए जाने के मामले में प्रविष्टि के पत्तन से अंतर्देशीय आधान डिपो अथवा आधान माल स्टेशन को कंटेनर की दुलाई उपगत माल भाड़े की लागत को खंड (क) में उल्लिखित परिवहन की लागत में शामिल नहीं किया जाएगा।”

[फा. सं. 467/24/2000-सीमा शुल्क (5)(खण्ड-III)]

एन.जे. कुमरेश, अवर सचिव

टिप्पण:—मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 51/88-सी.शु. (गै.टै.) दिनांक 18 जुलाई, 1988 [सा.का.नि. 800(अ) दिनांक 18 जुलाई, 1988] के तहत प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार इसका संशोधन अधिसूचना सं. 41/2001 सीमा शुल्क(गै.टै.), दिनांक 7-9-2001 [सा.का.नि. 652(अ) 7-9-2001] के तहत किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2004

No. 6/2004-CUS. (N.T.)

G.S.R. 49(E).—In exercise of the powers conferred by Section 156 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs Valuation (Determination of Price of Imported Goods) Rules, 1988, namely :—

1. (1) These rules may be called the Customs Valuation (Determination of Price of Imported Goods) Amendment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Customs Valuation (Determination of Price of Imported Goods) Rules, 1988, in Sub-rule (2) of Rule 9, after third proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided also that in case of goods imported by sea stuffed in a container for clearance at an Inland Container Depot or Container Freight Station, the cost of freight incurred in the movement of container from the port of entry to the Inland Container Depot or Container freight Station shall not be included in the cost of transport referred to in clause (a).”

[F.No.467/24/2000-Cus.V (Vol.III)]

N. J. KUMARESH, Under Secy.

Note :— The Principal rules were published in the Gazette of India vide notification No. 51/88-Cus.(N.T.), dated the 18th July, 1988 [GSR 800(E), dated 18th July, 1988] and last amended by Notification No.41/2001-Cus. (N.T.), dated 7-9-2001 [GSR 652(E), dated 7-9-2001].